



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1982/अग्रहायण 15, 1904

No. 540] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1982/AGRAHAYANA 15, 1904

इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को खूब से
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का. आ. 838 —प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अनुरोध पर 6 दिसम्बर, 1982 से औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद तथा जालना जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ 1(29)/82-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 838 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, on being requested so to do by Bank of Maharashtra, establishes, with
1046 GI/82

effect from the 6th December, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Maharashtra under the name of Aurangabad-Jalna Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Aurangabad and Jalna in the State of Maharashtra.

[No. F. 1(29)/82-RRB (I)]

का. आ. 839 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक के प्रयोजक बैंक ऑफ महाराष्ट्र से परामर्श करके, औरंगाबाद को उक्त स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ 1(29)/82-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 839.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the Bank of Maharashtra by which Aurangabad-Jalna Gramin Bank has been sponsored, specifies Aurangabad as the place where Aurangabad-Jalna Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1(29)/82-RRB(II)]

का. जा. 840.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1(29)/82-आर. आर. बी. (3)]

विनोद प्रकाश माहनी, संयुक्त सचिव

S.O. 840.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Aurangabad-Jalna Gramin Bank, Aurangabad being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1(29)/82-RRB (III)]

V. P. SAWHNEY, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

अधिसूचना

का. जा. 841.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एस. पी. चित्तलीकर को औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक औरंगाबाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 6-12-1982 से प्रारम्भ होकर 31-12-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस. पी. चित्तलीकर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-29/82-आर. आर. बी. (4)]

राम बेहरा, ज्वर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 841.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act,

1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Chitalikar as the Chairman of the Aurangabad-Jalna Gramin Bank, Aurangabad and specifies the period commencing on the 6-12-82 and ending with the 31-12-85 as the period for which the said Shri S. P. Chitalikar shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-29 82-RRB (IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

अधिसूचना

दम्बई, 6 दिसम्बर, 1982

का. जा. 842.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

“औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र)।”

[आर. पी. सी. डी. संख्या 243/आई.]

एन. सी. एल./311-821

एम. बी. शिवसंगी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

NOTIFICATION

Bombay, the 6th December, 1982

S.O. 942.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following banks namely :—

“Aurangabad-Jalna Gramin Bank, Aurangabad (Maharashtra)”.

[RPCD No. 243/INCL/311-82]

H. B. SIVAMAGGI, Executive Director